

October 24, 2020

BSE Limited	National Stock Exchange	Delhi Stock Exchange
Phiroze Jeejeebhoy	of India Limited	Limited
Towers,	Exchange Plaza, Bandra	DSE House, 3/1, Asaf Ali
Dalal Street,	Kurla Complex,	Road,
Mumbai – 400001	Bandra East, Mumbai –	New Delhi – 110002
	400051	
BSE - 500495	NSE – ESCORTS	DSE - 00012

Sub: Publication regarding intimation of date of meeting of Board of Directors

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that Company had published the enclosed notice dated October 23, 2020 for Intimation of date of Meeting of Board of Directors in the newspapers i.e. Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) dated October 24, 2020.

The above is for your kind information and records.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Escorts Limited

Satyendra Chauhan Company Secretary &

**Compliance Officer** 

**Encl: As above** 

CIN: L74899HR1944PLC039088

# 16

DATED: 22.10.2020

PLACE : Delhi

SATURDAY, OCTOBER 24, 2020

### **GULSHAN POLYOLS LIMITED**

Regd. Office: 9TH K.M., JANSATH ROAD, MUZAFFARNAGAR -251001, U.P. NOTICE FOR LOSS OF SHARES CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following Share Certificate(s) issued by the Company are reported to have lost/ misplaced/ stolen and the Registered Holder(s) thereof/ Claimants have applied to the

Compar	Company for issue of duplicate Share Certificate(s):						
S No.	Folio	Name	Cert No.	Dist No.	No. of Share		
1.	3821	NAMITA GUPTA	1104	698001 - 698500	500		
2.	8534	NARENDRA KUMAR JAIN	2273	1483536 - 1483865	330		

Any person(s) who has/ have claim(s) in respect of abovementioned Share(s) should lodge sucl claim(s) in writing supported by valid documents with Registrar & Transfer Agent, Alankit Assignme. Ltd., Alankit Heights, 4E/2, Jhandewalan Extn., New Delhi - 110 055, Tel.-011- 42541234; Fax 41543474 within 10 days of publication of this Notice. Thereafter no claims will be entertained and the RTA will proceed for issuing duplicate Share Certificate(s) in lieu of Original Share Certificate(s) For and on Behalf of **GULSHAN POLYOLS LIMITED** 

VIJAY KUMAR GARG

COMPANY SECRETARY 🕸 The Karnataka Bank Ltd.

Head Office, Mangaluru - 575 002 | CIN : L85110KA1924PLC001128 POSSESSION Asset Recovery Management Branch 8-B, First Floor, Rajendra Park, Pusa Road, New Delhi-110060.

NOTICE (For Immovable Phone: 011-25813466 | E-Mail: delhiarm@ktkbank.com Property) Mobile: 9319891680 | Website: www.karnatakabank.com

Whereas, undersigned being the Authorised Officer of KARNATAKA BANK LIMITED, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act], 2002(54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 05.08.2020 calling upon the borrower/ mortgagor/ guarantors: (1) M/s Noble Vision, Represented by its Proprietor Mr. Harpreet Singh Ahluwalia, addressed at: Flat No. A5C/21B, Janakpuri, West Delhi, Delhi-110058 (2)Mr. Harpeet Singh Ahluwalia, S/o Mr. Kulwant Singh, (3)Mrs. Harleen Ahluwalia, W/o Mr. Harpreet Singh Ahluwalia, Both (2) and (3) are residing at: Flat No. A5C/32-A, Janakpuri, B-1, West Delhi, Delhi 110058, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 10.49,611.38 [Rupees Ten Lakhs Forty Nine Thousand Six Hundred Eleven and Paisa Thirty Eight Only] i.e. (1) Rs. 5,22,524.38 under Ps-Overdraft Account No. 5507000600006401 along with future interest from 01.08.2020 and (2) Rs. 5.27,087 under PS- DPN Account No. 5507001400003301, along with future interest from 17.07.2020 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers, mortgagors and the guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, mortgagors, guarantors and the public in general that the undersigned has taken the Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 and 9 of the Security Interest Enforcement, Rules 2002 on this the 19" October of the year 2020.

The borrowers, the mortgagors and the guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property mentioned herein below and any dealings with the property will be subject to the charge of Karnataka Bank Limited, R K Puram Branch, New Delhi for an amount of Rs. 10,79,183.38.00 [Rupees Ten Lakhs Seventy Nine Thousand One Hundred Eighty Three and Paisa Thirty Eight Only] i.e. (1) Rs. 5,37,078.38 under PS- Overdraft Account No. 5507000600006401 along with future interest from 01.10.2020, Plus costs and (2) Rs. 5,42,105.00 under PS- DPN Account No. 5507001400003301, along with future interest from 17.10.2020, Plus costs.

[The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets).

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Already held Equitable Mortgage of Residential Freehold DDA Built Flat bearing No. A-5C/21-A (Flat No. 21A, Block- A5C), having covered area of 48 Sq. Mts, LIG Category on Ground Floor, Janakpuri, New Delhi- 110058 belonging to Mrs. Harleen Ahluwalia. Boundaries: East: Open Park, West: Open, North: Entry, South: Open

Place: Delhi, Date: 19.10,2020. For Karnataka Bank Ltd, Chief Manager & Authorised Officer

# 🕸 The Karnataka Bank Ltd.

Head Office, Mangaluru - 575 002 | CIN : L85110KA1924PLC001128 Asset Recovery Management Branch 8-B, First Floor, Rajendra Park, Pusa Road, New Delhi-110060.

Phone: 011-25813466 | E-Mail: delhiarm@ktkbank.com Mobile: 9319891680 | Website: www.karnatakabank.com

(For Immovable Property) Whereas, undersigned being the Authorised Officer of KARNATAKA BANK LIMITED, under

POSSESSION

NOTICE

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act], 2002(54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 10.08.2020 calling upon the borrower/ mortgagor/ guarantors: (1) Mrs. Harleen Ahluwalia, W/o Mr. Harpreet Singh Ahluwalia, (2)Mr. Harpeet Singh Ahluwalia, S/o Mr. Kulwant Singh, Both (1) & (2) are residing at: Flat No. A/5C/32-A, Janak Puri, B-1, West Delhi, Delhi-110058, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 40,05,504.00 [Rupees Forty Lakhs Five Thousand Five Hundred and Four Only] i.e. (1) Rs. 25,20,680.00 under Term Loan Account No. 5507001600023501 and (2) Rs. 14,84,824.00 under Overdraft Account No. 5507000100003901, along with future interest from 01.08.2020 for all the accounts, within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers, mortgagors and the guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, mortgagors, guarantors and the public in general that the undersigned has taken the Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 and 9 of the Security Interest Enforcement, Rules 2002 on this the 19" October of the year 2020.

The borrowers, the mortgagors and the guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property mentioned herein below and any dealings with the property will be subject to the charge of Karnataka Bank Limited, R K Puram Branch, New Delhi for an amount of Rs.40,91,559.00 [Rupees Forty Lakhs Ninety One Thousand Five Hundred and Fifty Nine Only] i.e Rs. 25,58,834.00 under Term Loan Account No. 5507001600023501 and (2) Rs.15,32,725.00 under Overdraft Account No. 5507000100003901, along with future interest from 01.10.2020, Plus

[The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets!

West : Open

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY Already held Equitable Mortgage of Residential Freehold DDA Built Flat bearing No. A-5C/21-A (Flat No. 21A, Block-A5C), having covered area of 48 Sq. Mts, LIG Category on Ground Floor, Janakpur New Delhi- 110058 belonging to Mrs. Harleen Ahluwalia.

North : Entry South : Open Place: Delhi, Date: 19.10.2020, For Karnataka Bank Ltd, Chief Manager & Authorised Officer

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

Boundaries: East : Open Park

# (Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary

Liquidation Process) Regulations, 2017) FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF TEFAL INDIA HOUSEHOLD APPLIANCES PRIVATE LIMITED

1.	NAME OF CORPORATE PERSON	Tefal India Household Appliances Private Limit
2.	DATE OF INCORPORATION OF CORPORATE PERSON	August 16, 1995
3.	AUTHORITY UNDER WHICH CORPORATE PERSON IS INCORPORATED/ REGISTERED	Registrar of Companies, NCT Delhi & Haryana
4.	CORPORATE IDENTITY NUMBER	U74899DL1995PTC101923
5.	ADDRESS OF THE REGISTERED OFFICE OF CORPORATE PERSON	C-67, 3rd Floor, DDA Sheds, Okhla Phase-1, Delhi – 110 020
6.	LIQUIDATION COMMENCEMENT DATE OF CORPORATE PERSON	October 23, 2020
7.	NAME, ADDRESS, EMAIL ADDRESS, TELEPH ONE NUMBER AND THE REGISTRATION NUMBER OF THE LIQUIDATOR	Mr. Anil Rustgi IBBI Registration no.: IBBI/IPA-002/IP-N00683 2018-19/12382 Address: H.no-524, Tower-6 H E W O-1,Sector-56,Gurgaon, Haryana,122 01 Mail ID: anil_rustgi@yahoo.co.in Phone no.: 98733333343

Notice is hereby given that Tefal India Household Appliances Private Limited has commenced voluntary liquidation on October 23, 2020.

The stakeholders of Tefal India Household Appliances Private Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before November 21, 2020, to the liquidator at the address mentioned against The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders

may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

8. LAST DATE FOR SUBMISSION OF CLAIMS November 21, 2020

Date: October 23, 2020

Anil Rustqi (Voluntary Liquidator)

### TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD. Registered Office :11th Floor, Tower A 1101 Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Patel, Mumbai - 400013 (India) Branch Address: SCO 167-168, 1st Floor, Sec-8C, Madhya Marg, Chandigarh, 160018.

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY (Under Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002)

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

LOAN ACCOUNT 20053323

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below Borrower/ Co Borrowers that the below described immovable property mortgaged to Tata Capital Financia Services Ltd. (Secured Creditor/TCFSL), the Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Tata Capital Financial Services Ltd. (Secured Creditor), will be sold on 18th DAY OF NOVEMBER 2020 "As is where is basis" & "As is what is and whatever there is & without

Whereas the sale of secured asset is to be made to recover the secured debt and whereas there was a due of a sum of Rs.1,25,12,887.49/- (Rupees One Crore Twenty Five Lacs Twelve Thousand Eight Hundred Eighty Seven and Forty Nine Paisa only) including all costs, interest etc. as on 12th December, 2019 from Borrowers/Co-Borrowers, i.e., 1. M/S SUNRISE TRADERS, Through its Partner, 2. LALIT MOHAN SINGHLA S/O KISHAN CHAND. 3.

KAVITA GOYAL, W/O RAJNISH KUMAR GOYAL, 4 RAJNISH KUMAR GOYAL, & 5. ADIT SINGLA. Notice is hereby given that, in the absence of any postponement/ discontinuance of the sale, the said property shall be sold by E- Auction at 2 P.M. on the said 18th DAY OF NOVEMBER 2020 by TCFSL., having its branch office at SCO 167-168, 1st Floor, Sec-8C Madhya Marg, Chandigarh, 160018. The sealed E- Auction for the purchase of the property along with EMD Demand Draft shall be received by the Authorized Officer of the TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD till 5 P.M. on the said 17th DAY OF NOVEMBER 2020.

Description of Secured Asset	Reserve	Earnest
PANCHKULA ROAD, VILLAGE NAGGAL, BARWALA, KHWETA	Price (Rs)	Money (Rs)
76, KHATAUNI 83, KHASRA 25/02,19, 14/21/2/2/22, AREA 3660.25 SQ. YDS. VILLAGE NAGGAL, BARWALA, HARYANA	Rs.	Rs. 12,09,050/-
AS PER SALE DEED. BOUNDED AS-NORTH: GHANSHYAM, SOUTH: LALIT MOHAN & PANCHAYATI LAND, EAST: MUKUND LAL, WEST: ROAD		Physical

person, having any duty to perform in connection with this sale shall, however, directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold. The sale shall be subject to the rules/conditions prescribed under the SARFAESI Act, 2002. The E-auction will take place through portal https://disposalhub.com on 18th DAY OF NOVEMBER 2020 between 2.00 PM to 3.00 PM with unlimited extension of 10 minutes each. All the Bids submitted for the purchase of the property shall be accompanied by Earnest Money as mentioned above by way o a Demand Draft favoring the "TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD." payable a Chandigarh. Inspection of the property may be done on 12th November, 2020 between 11 AM to 5.00 PM.

Note: The intending bidders may contact the Authorized Officer Mr. Ayan Bhattacharya, Email ic Ayan.Bhattacharya@tatacapital.com and Mobile No.7290010751.

For detailed terms and conditions of the Sale, please refer to the link provided in secured creditor's website, i.e., https://www.tatacapital.com/content/dam/tata capital/pdf/tcfsl/AUCTIONTERMS%26CONDITIONS.pdf, or contact Authorised Officer of Service Provider- Nexxen Solutions Private Limited.

Sd/-Authorized Officer, Tata Capital Financial Services Ltd.

### JELM JINDAL STAINLESS LIMITED CIN: L26922HR1980PLC010901

Regd. Office: O.P. Jindal Marg, Hisar-125 005 (Haryana) Phone No. (01662) 222471-83, Fax No. (01662) 220499 Email Id.: investorcare@jindalstainless.com, Website: www.jslstainless.com

NOTICE

In compliance with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, this is to inform that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 30th October, 2020 at Corporate Office of the Company at New Delhi to consider and approve, inter alia, the un-audited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020.

This Notice is also available on the website of the Company www.islstainless.com and also on the websites of the stock exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com. for Jindal Stainless Limited

Place: New Delhi Date: October 23, 2020

www.bseindia.com.

(Navneet Raghuvanshi) Company Secretary

### **ORACLE CREDIT LIMITED** Regd. Off: P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016 CIN: L65910DL1991PLC043281

E-mail: oracle\_credit@yahoo.co.in, info@oraclecredit.co.in Website: www.oraclecredit.co.in, Phone: 011- 26167775 NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Friday, October 30, 2020 at the Registered Office of the Company at P-7, Green Park Extension, New Delhi- 110016, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the guarter and half year ended September 30, 2020. This information may be accessed on the Company's website at www.oraclecredit.co.in and on theStock Exchange's website at

Vineeta Gautam Place: New Delhi (Company Secretary & Compliance Officer) Date: 23.10.2020

🕸 The Karnataka Bank Ltd.

Head Office, Mangaluru - 575 002 | CIN : L85110KA1924PLC001128 Asset Recovery Management Branch 8-B, First Floor, Rajendra Park, Pusa Road, New Delhi-110060. Phone: 011-25813466 | E-Mail: delhiarm@ktkbank.com Mobile: 9319891680 | Website: www.karnatakabank.com

NOTICE (For Immovable Property) Whereas, undersigned being the Authorised Officer of KARNATAKA BANK LIMITED, under

POSSESSION

For Oracle Credit Limited

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act], 2002(54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 31.07.2020 calling upon the borrower/ mortgagor/ guarantors: (1) Mr. Ram Kagwar, S/o Mr. Mangal Singh, (2) Mr. Mangal Singh, Slo Mr. Sadhu Ram, Both (1) & (2) are residing at: H. No. 8585, Gali Bharghar, Roshanara Road, Near Place Cinema, Delhi-110007, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 9,13,198.00 [Rupees Nine Lakhs Thirteen Thousand One Hundred Ninety Eight Only] under Term Loan Account No.1897001600243101, along with future interest from 17.07.2020, within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers, mortgagors and the guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, mortgagors, guarantors and the public in general that the undersigned has taken the Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of Act read with Rule 8 and 9 of the Security Interest Enforcement, Rules 2002 on this the 20th October of the year 2020.

The borrowers, the mortgagors and the guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property mentioned herein below and any dealings with the property will be subject to the charge of Karnataka Bank Limited, Chandni Chowk Branch, Delhi for an amount of Rs.9,47,580.00 [Rupees Nine Lakhs Forty Seven Thousand Five Hundred Eighty Only] under Term Loan Account No.1897001600243101, along with future interest from 17.10.2020, Plus costs [The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of

time available to redeem the secured assets]. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY Residential Property at H No.8585, Ward No.12, Roshanara Road, Delhi-110007, measuring 52 sq.

yard, Standing in the name of Mr. Mangal Singh. Boundaries: East : Others West : Entry & Gali

North: Property No 8586 South: Property No 8584 For Karnataka Bank Ltd, Chief Manager & Authorised Officer Place: Delhi, Date: 20.10.2020,

THDFC BANK

HDFC Bank Ltd. Legal Cell Plot No. 31, Tower - "A", 1st Floor, Najafgarh Industrial Area. Shivaji Marg, Moti Nagar, New Delhi - 110015 "APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8 (6)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of HDFC Bank Ltd. Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 11th November 2020, for recovery of Rs. 2,45,41,934/- o/s as on 14.09.2018 along with further interest and charges applicable due to the HDFC Bank Ltd. Secured Creditor from MR. MUKESH AGARWAL, MR. LOKESH KUMAR AGARWAL & MR. RAKESH KUMAR AGARWAL. The reserve price will be Rs. 1,12,50,000/- for each property

Sale notice for sale of immovable properties

and the earnest money deposit will be Rs. 11,25,000/- for each property. Short description of the immovable property

ENTIRE GROUND FLOOR WITHOUT ROOF RIGHT BUILT UP PROPERTY NO 281, MEASURING 186.67 SQ. YDS., SITUATED IN THE LAYOUT PLAN OF THE JAGRITI NAGAR CHBS LTD., COLONY KNOWN AS JAGRITI ENCLAVE, DELHI, BELONGS TO MR. MUKESHAGGARWAL

Reserve Price - Rs. 1,12,50,000/- EMD Price - Rs. 11,25,000/-PROPERTY NO.-2.

ENTIRE FIRST FLOOR WITHOUT ROOF RIGHT BUILT UP PROPERTY NO. 281 MEASURING 186.67 SQ. YDS., SITUATED IN THE LAYOUT PLAN OF THE JAGRITI NAGAR CHBS LTD., COLONY KNOWN AS JAGRITI ENCLAVE, DELHI BELONGS TO MR. LOKESH KUMAR AGGARWAL

Reserve Price - Rs. 1,12,50,000/- EMD Price - Rs. 11,25,000/-For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in HDFC Bank Ltd. Secured Creditor's website https://www.hdfcbank.com/personal/resources/important-notices

Authorised Officer Date: - 24.10.2020 Place: - Delhi HDFC Bank Ltd

# FRONTLINE SECURITIES LIMITED

Regd. Office: M-6. IInd Floor, M Block Market, Greater Kailash -II, New Delhi- 110048 Corporate Office: B-22, Sector-4, Noida, Uttar Pradesh- 201301 Website: www.fslindia.com; E-mail: secretarial@fsltechnologies.com

Corporate Identity Number: L65100DL1994PLC058837 Tel: +91-120-2534067,68; Fax: +91-120-2534111

INFORMATION REGARDING 26™ ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that pursuant to the applicable provisions of Companies Act, 2013

and rules made there under and circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), the 26" Annual General Meeting ("AGM") of Frontline Securities Limited is scheduled to be held on Friday, November 20, 2020 at 02.00 p.m. IST through video conferencing ("VC") other audio visual means (OAVM") without physical presence of members of the Company at common venues to transact the business as set out in Notice of the Meeting.

In compliance with aforesaid MCA Circulars, Notice of 26th Annual General Meeting and the Annual report for the financial year ended March 31, 2020 will be sent to all the Shareholders whose email address are registered with Company/Depository Participant(s). The Notice of 26th Annual General Meeting and Annual report will also be available on the website of the Company at www.fslindia.com. The members can attend AGM through VC / OAVM only. The Instructions for joining the AGM through VG / OAVM will be provided in Notice of Annual General Meeting. The attendance of the Members attending the AGM through VG/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM to all its members to cast their votes electronically on all the resolutions as set out in the Notice of AGM. Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of Annual General Meeting.

The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the nembers through email. The members who do not receive email or whose email address are not registered with the Company/Depositories, may generate login credentials by following the instructions given in the Notes to the Notice of AGM. The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.

Members may note that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, November 14, 2020 to Friday, November 20, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Manner of Registering/Updating Email Address and Bank Account Details: Members who hold shares in physical mode are requested to kindly register/update their

email address and bank account details with the Company by sending duly signed request letter at secretarial1@fsltechnologies.com containing Folio No., Name of shareholder email id, mobile number, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) or any document (such as Driving Licence, Bank Statement, Election Card, Passport) for registering email address.

Following additional details need to be provided in case of updating Bank Account Details: a) Name and Branch of the Bank in which you wish to receive the dividend.

b) the Bank Account type. Bank Account Number allotted by their banks after implementation of Core Banking

d) 9 digit MICR Code Number, and

Place: Noida

e) 11 digit IFSC Code f) a scanned copy of the cancelled cheque bearing the name of the first shareholder The members who hold shares in demat mode are requested to kindly contact the Depository Participant (DP) and register the email address and bank account details in the

demat account as per the process followed and advised by the DP. For Frontline Securities Limited

Date: 23.10.2020 Company Secretary

**Grovy India Limited** Regd Office: 122, 1st Floor, Vinobapuri, Lajpat

Nagar II, New Delhi - 110024, Ph:011-46740000 CIN: L74130DL1985PLC021532 Email: grovyindia@gmail.com Website: www.grovyindia.com NOTICE

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, notice is hereby given tha the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 2nd November, 2020 at 12:00 noon at registered office of the Company at 122, 1st Floor, Vinobapuri, Lajpat Nagar II, New Delhi 110024 interalia to consider the un-audited financial results for the second quarter (Q2) and half year ended on 30th September, 2020. The Board Meeting notice can be accessed at Company's website www.grovyindia.com under Investor Zone Tab - Corporate Announcements head and at website of exchange viz. www.bseindia.com.

(Nishit Jalan) Whole-Time Director & CEO Place: New Delhi Date: 23.10.2020 DIN: 02964239

By order of the Board

CIN: L74899HR1944PLC039088 Regd. Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad – 121003, Haryana Phone: 0129-2250222, Fax: 0129-2250060 E-mail: corpsl@escorts.co.in, Website: www.escortsgroup.com

NOTICE

(Under Regulation 29 read with Regulation 47 of

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015} Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, November 2, 2020, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020. The financial results shall be subject to limited review by the Statutory Auditors of the Company. Further the said information is also available or

the Company's website at www.escortsgroup.com and may also be available on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and By order of the Board www.nseindia.com For Escorts Limited

Satyendra Chauhan

Place: Faridabad Company Secretary & **Date**: 23.10.2020 Compliance Officer

**BDR BUILDCON LIMITED** CIN-L70100DL2010PLC200749 Regi. Office: 31, Jangpura Road, Bhogal,

New Delhi-110 014 Corporate office address: 21, Ring Road, Third Floor, Front Portion, Lajpat Nagar-4, New Delhi-110024

Website: www.bdrbuildcon.com E-mail: info@bdrbuildcon.com

Tel.: 011-2647 7771

NOTICE Pursuant to Regulation 29 read with

Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, NOTICE is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 10th day of November, 2020 at 21 Ring Road, Third Floor, Front Portion, Laipat Nagar- IV, New Delhi-110024 at 3:00 PM to consider and approve quarterly financial results of the Company for the quarter ended on 30th September, 2020.

The said intimation is also available on the Company's website at www.bdrbuildcon.com and may also be available on the website of the Stock Exchange at https://www.nseindia.com/emerge\_itp/.

For BDR BUILDCON LIMITED

Place: New Delhi RAJESH GUPTA Date: 23rd Oct., 2020 Managing Director FORM NO. INC-26

(Pursuant to Rule 30 of Companies

(Incorporation) Rules 2014] Advertisement to be published in Newspaper for the change in Registered Office of the Company from one state to another Before the Central Government North Western Region Bench, Ahmedabad

In the matter of sub-section 4 of section 13 of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014

In the matter of M/S R S C INTERNATIONAL

LIMITED having its Registered Office at Plot No. 30, Sangam Colony, Opposite VKI Road No. 14 Sikar Road Jaipur 302013, Rajasthan INDIA Notice is hereby given to General Public that the company proposes to make the application to the Central Government under section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of Memorandum of Companies of the company in term of special resolution passed at Annual General Meeting held on Monday,28"Day of September 2020 to enable the company to change its

Registered Office from "State of Rajasthan" to "State Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on MCA portal (www.mca.gov.in) by filling investor complaint form or cause to be deliver or send by egistered post of his/ her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director at the Address Roc Bhavan, Opp Rupal Park Society, Behind Ankur Bus Stop, Naranpura, Ahmedabad-380013, within 14 Days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its gistered office at the address mentioned below: ADDRESS OF REGISTERED OFFICE: Office at

Plot No. 30, Sangam Colony, Opposite VKI Road No. 14, Sikar Road Jaipur 302013, Rajasthan INDIA For and Behalf of R S C INTERNATIONAL LIMITED GYAN CHAND JAIN DIN: 00498094

MPORTANT advertising copy, it is not possible to verify its

contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

### PARIKSHA FIN-INVEST-LEASE LIMITED

[Corporate Identity Number (CIN): L65100DL1994PLC057377] Regd. Off.: 7-C, 1" Floor, J Block Shopping centre, Saket, New Delhi-110 017 Tel.: 0120-4152766, 4193799, Website: www.pfil.in, E-mail - pariksha.delhi@gmail.com

Extracts of Un-Audited Financial Results for the Quarter/Half ended 30th September, 2020

	Quarter	r Ended	Half Yea	r Ended
Particulars	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019
63	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited
Total Income from Operations	9.06	17.10	18.32	27.95
Net Profit / (Loss) for the period	4.04	2.65	3.10	1.90
(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)		le-		
Net Profit / (Loss) for the period before tax	4.04	2.65	3.10	1.90
(after Exceptional and/or Extraordinary items#)		100000		
Net Profit / (Loss) for the period after tax	4.81	2.30	-3.24	1.88
(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	7,50=5011	3.855-5	2652h:	9907-50
Total Comprehensive Income for the period	4.81	2.30	-3.24	1.88
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)				
and Other Comprehensive Income (after tax)]				
Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each)	375.05	375.05	375.05	375.05
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown		910	0.00	ē.
in the Audited Balance Sheet of previous year)	13	(as on 31	.03.2020)	
Earning Per Share (of Rs. 10/- each)				
(for continuing and discontinued operations)-				
1. Basic	0.13	0.06	-0.09	0.05
2. Diluted	0.13	0.06	-0.09	0.05

Place: Ghaziabad

The above is an extract of the detailed format of 2<sup>rd</sup> Quarter/Half Year ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the 2" Quarter/Half Year ended Financial Results are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the company's website (www.pfil.in)

BY THE ORDER OF THE BOARD For Pariksha Fin-Invest-Lease Limited

(Harnand Tyagi)

Date: 23.10.2020 Yes Bank Ltd.

Email: comminications@yesbank.in CIN: L65190MH2003PLC143249

Registered and Corporate Office: es Bank Tower, IFC 2, 15th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphiston (W), Mumbai 400 013, ndia. Tel.:+91(22)3366 9000, Fax: +91(22)2421 4500, Website: www.yesbank.in,

BANK YES

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY (Under Rule 9 read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002)

Ref. No YBL/ DEL/ENFORCEMENT/RN/2020-21/140 E-Auction Sale notice for sale of immovable assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property at S.No. 1mortgaged/charged to the Yes Bank Ltd. ("the Secured Creditor"), the possession whereof has been taken by the Authorized officer of the secured creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is "on November 16, 2020 for recovery of Rs. 4,61,07,158/-(Rupees Four Crore Sixty One Lakhs Seven Thousand and One Hundred Fifty Eight Only) due as on 30th September, 2020 together with further interests, costs, charges and expenses thereon with effect from February 01, 2020, due to the

Varun Gupta (Herein after referred to as "Guarantor"). The detail regarding the description of properties, reserve price (below which the properties will not be sold) and the

secured creditor from M/s Daulat Ram Jharia Mal Through Its Proprietor ("Borrower"), Mr. Balram Gupta (Herein

after referred to as " Mortgagor & Guarantor"), Mr. Tarun Gupta (Herein after referred to as "Guarantor") and

Sr.No.	Description of the mortgaged property as per documents	Reserve Price	EMD
	Property bearing Khasra no. 1864/1849/38 measuring 170 Sq. Yds, situated in Village Hidmatpur, Gurgaon (Current Muncipal address 27/6, Opposite Gupta Hospital Jacubpura, Gurgaon Haryana-122001.	(Rupees One Crore	Rs. 18,20,000/- (Rupees Eighteen Lakh Twenty Thousand Only)

TERMS AND CONDITION OF THE SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES BY WAY OF E-AUCTION: Inspection of the properties: Interested parties may inspect the properties on November 09 & 10, 2020 between 10:30 AM to

minutes in case bid is placed in the last five minutes before the appointed closing time.

Last date and time of submitting EMD: November 13, 2020 up to 5:00 PM The Auction Sale will be "Online E-Auction/ Bidding" through YBL's approved service provider, M/s E- Procurement Technologies Limited having its Office at B-704-705, Wall Street -II, Opp. Orient Club, Nr. Gujarat College, Ellis Bridge,

Ahmedabad - 380 006, Gujarat, Contact for Support 9374519754, Contact Person - Ram Prasad, Mobile No. 08000023297 / 9978434773 / 9265562818,21, Land Line No. 079 68136 855 and also help line mail id Delhi@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net at the web portal https://sarfaesi.auctiontiger.net / also on Auction The auction sale will be held on November 16, 2020 between 11:00 AM to 2:00 PM with auto-extensions for 5 (five)

improve their offer in multiple of Rs.50,000/- (Fifty Thousand only) The properties will not be sold below the reserve price set by the AO. The Bid quoted below the reserve price shall be

rejected and the EMD deposited shall be forfeited. The successful bidder shall have to pay 25% of the purchase amount (including Ernest Money) already paid within 24 hours of the closure of the E-Auction sale proceedings. The Balance 75% of the purchase price shall have to be paid within 15 (Fifteen) days of the confirmation of the sale by the Bank or such extended period as agreed upon in writing by and

solely at the discretion of the AO, sailing which the bank shall forfeit amounts already paid/deposited by the purchaser.

The Bid price to be submitted shall be above the reserve price fixed by the Authorized Officer ("AO") and bidder shall further

Bidders are advice to visit the said website www.yesbank.in for Bid forms and detailed terms and condition of the sale before submitting their bids and participating in the proceedings. Bids shall be submitted online only in the prescribed format(s) with relevant details duly filled in. Bids submitted in any

other format/incomplete bids are liable to be rejected. All Bid forms shall be accompanied by copies of following KYC documents viz (i) PAN card (ii)Aadhar card/passport (iii) Current Address proof (iv)valid e-mail ld (v) Contact number/s (mobile/landline), etc. Scanned copies of said documents shall be submitted to the email Id stated above. Earnest money Deposit (EMD) as mentioned against each property described in the accompanying Sale Notice shall be deposited through RTGS/NEFT/FUND TRANSFER to the credit of the

following account before submitting the bids online:-**Particulars** Details Name of Bank & Branch YES Bank Ltd. BB CAD Delhi Internal Account Chanakyapuri, Delhi Name of Beneficiary YES Bank Ltd. BB CAD Delhi Internal Account Account No. 000389900000074 YESB0000003 Chanakyapuri, Delhi IFSC Code

be conveyed through email only. Prospective intending bidders may contact the service provider on the detail mentioned above to avail online/in-person training on participating in the e-auction.

The Bidders should hold the valid e-mail id as all the relevant information from secured creditor/the service provider may

However, neither the Authorized Officer nor the secured creditor or service provider shall be responsible for any technical

The intending bidder should submit a proof of deposit of EMD to the bank in a format as may be acceptable to the Bank.

lapses/power failure, etc. The EMD of unsuccessful bidders will be returned within 7 working days from the date of closure of e-auction proceedings. The sale is subject to confirmation by the Bank. If the borrower/guarantors(s) pay the entire amount due to the secured creditor before the appointed date and time of e-auction, no sale will be conducted

To the best of knowledge and information of OA, no other encumbrances exist on the aforesaid properties, however prospective tenders are advised to do their own due diligence and conduct independent enquiries in regard to the title/encumbrances, etc. The AO shall not be held responsible for any charge, lien, encumbrances, property tax or any other dues to the Government and anybody in respect to the aforesaid mortgage property. The properties are being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the secured creditor.

The AO has the right to reject any tender/tenders (for either of the property) or even may cancel the e-auction without assigning any reason thereof. On compliance of terms of sale, AO shall issue a 'certificate of sale' in favor of the purchaser. All expenses relating to stamp

duty, registration charges, conveyance, VAT, TDS, etc. shall be borne by the purchaser. The sale is subject to the conditions prescribed in the SARFAESI Act/Rules 2002 and the condition mentioned above.

For any further information on the auction, including inspection of the properties, the intended tenders may contact Authorized Officer (AO) Rohit Nijhawan +91 9350741339 between 10:30 am to 5:30 pm on all working days.

YES BANK Limited

SALE NOTICE TO BORROWER/GAURANTORS The above shall be treated as Notice to the Obligants to pay the same within 15 days from the date of publication. Date: 23-October-2020 Sd/- (Authorized Officer)



Place: New Delhi

### AU SMALL FINANCE BANK LIMITED (A SCHEDULED COMMERCIAL BANK)

Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

APPENDIX IV [SEE RULE 8(I)] POSSESSION NOTICE

Whereas. The undersigned being the Authorized Officer of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) under the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act, 2002 (54 of 2002)] and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date as mentioned below calling upon the borrowers to repay the amount mentioned in the said notice within 60 days from the date of receipt of the said notice as per the details given in below table:

of Core Banking	Name of Borrower/Co-Borrower/ Mortgagor/Guarantor Loan A/c No.	13(2) Notice Date & Amount	Description of Mortgaged Property	Date of Possessi
areholder adly contact the unt details in the	RAJESH KUMAR (Borrower & Mortgagor), Omkar Singh (Co-Borrower), Guarantor: Smt. Seema Kumar (A/c No.) LSEST02715-160338839 (L9001060100872649)	4-Dec-18 ₹1597411/- Rs. Fifteen Lac Ninety Seven Thousand Four Hundred Eleven only. as on 3-Dec-18	All that part and parcel of residential/commercial property Land/Building/ Structure and fixtures situated at Plot No. 25, Aaraji Khasra No. 10//18/1, 13/2, At Vill Gochi, Th. & DistFaridabad, Haryana. Admeasuring 87 Sq. Yds. Owned by Rajesh Kumar, Which is having four boundaries: - East: MCF No. 1267, West: Plot No. 24 (MCF No. 1164), North: Road, South: Other's Property	
curities Limited Sd/- Pooja Gupta pany Secretary	SUDARSAN BEHERA (Borrower & Mortgagor), SMT. BHAGABATI BEHERA (Co-Borrower) (A/c No.) LSDEL02716-170454250 (L9001060100605261)	25-Sep-17 ₹959154/- Rs. Nine Lac Fifty Nine Thousand One Hundred Fifty Four only. as on 20-Sep-17	All that part and parcel of residential/commercial property Land/Building/ Structure and fixtures situated at Property No. 10, Khasra No. 213-A, Village Yusufpur Alias Chaksiwadi, Paragana & Tehsil Dadri, Gautam Buddh Nagar, UP. Admeasuring 87 Sq. Yrd. Owned by Sudarsan Behera, Which is having four boundaries:- East:Other's plot, West:Road, North:Other's plot, South:Other's plot	22-Oct- 2020
	The borrower having failed to repay the a	amount, therefore notice is hereby	given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken posse	ssion of th

property described herein above mentioned table in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said (Act) read with Rule 8 of the said rule on the date mentioned in the above table. "The borrower's attention is Invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets." The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) for the amount and interest thereon mentioned in the above table. Place: Delhi Date: 23-Oct.-2020 Authorised Officer AU Small Finance Bank Limited Chandigarh

# financialexp.epap.in

Place: - Chandigarh Date- 24.10.2020

## के दौरान दो अग्निशमन कर्मी घायल

मंबई. २३ अक्तबर (भाषा)।

मुंबई के एक मॉल में गुरुवार रात लगी आग को काब करने में अग्निशमन विभाग के कर्मी पिछले 12 घंटे से जुटे हैं। इस घटना में अग्निशमन विभाग के दो कर्मचारी जख्मी हो गए वहीं मॉल के पास स्थित एक इमारत से 3,500 लोगों को एहतियात के तौर पर बाहर निकाला गया है।

नगर निकाय के सुत्रों ने शुक्रवार को बताया कि मुंबई सेंट्रल क्षेत्र में स्थित सिटी सेंटर मॉल में गुरुवार रात आठ बजकर 50 मिनट

#### शुद्धिपत्र

उजाला कॉमर्शियल्स लिमिटेड निदेशक मण्डल की बैठक सूचना शीर्षक में कम्पनी का सीआईएन न. L51909DL1985PLC021397

L93000DL1985PLC021397 पढा जाए शेष सूचना यथावत रहेगी। असुविधा के लिए खेद है।

### गडलक इंडिया लिमिटेड उठारम श्राचना श्रिमी दिव बीकृत कार्यातचः 509, यकणायत बिल्विः यमा रोड, कर्नाट प्लेस, मुद्दे दिल्ली—11 येवलाइट www.goodluckindia.com शिल goodluckäggoodluckindia.com CIN: LY4890L1986PL085910

प्रकार प्रश्निक प्राप्ति के और धव (सूचीबद्ध द्वापित्त और धव रचकवाएं) नियमावर्डी, 2015 के नियम 43-प्रति नियम 22 के अनुसार, एस्तुम दिसान्यर, 2020 के नियम कि नियम कि स्थितिक दिल्लिक प्रति नियमानी पर स्थितिक दिलाई पर्दाचनानी पर दिसान्यर कि स्थान प्रति के स्थानिक स्थानिक स्थानिक विलोच पर्दाचनानी पर विकार विलोच पर्दाचनानी पर विकार विलोच पर्दाचनानी पर विकार विलोच स्थानिक कि कि क्षानीर कार्यालय को कोर्नो के कारीरिय कार्यालय

इस पूचना न दा नह जानकार्य कम्पना का वस्ताहर www.goodluckindia.com और बीएसई की और एनएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उत्तरकार है। मंडल के आरे शानुसार कृते मुडलक इंडिया लिमिटेड

हस्ता./— (आर.सी. गर्ग) निदेशक ढीनः 00298129



सूचना सेबी (सूबीयन उत्तरदादित एवं प्रकटन अपेशाएँ) नियम 2015 के विनियम 29 और 47 के अधीन

सुवित किया जाता है कि कंपनी के एक बैठक सीमवार, 2 गंपनर, 202 की जाएगी जिसमें अन्य विषयों से र 2020 को समाप्त तिमक्षी हथा अर्दुवर्षिक

#### unitech

पुरिक शिक्षदेह (TN: L7489DL 1971 PLC009720 प्रेमीकृत कार्यालयः देशनेन्द्र, ६. कप्युनिद्ये तेन्द्र, साकेत, न्द्र रिक्ति-110017 टेलीफैक्स-- 11-26857338, है-मेल :share-dept@mitechgroup.com

. लिये बोर्ड की बैठक चुधवार, 28 अक्टूबर, 202

कृते युनिटेक लिमिटे

बीटीयार बिल्डकॉन विमिटेड

बाइआर । बल्डकान । तांसटड CIN- L701000L2010PL200749 पंजी, कार्यालक ३1, जानपुरा रोड, गोगल, गई दिल्ली – 110014 कॉर्पोरेट कार्यालय २२ १रेग रोड, तीसरी मंजिल, छट पार्टियन, लाजपद नगर-4, मंडि दिल्ली – 110024 कोन 1011–2847 7771

वेषसाइट : www.bdrbuildcon.com ईनेल : info@bdrbuildcon.com सूचना

विनियमन, 2015 के विनियमन 47 व तेमाही और वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी वेत्तीय परिणामां पर विचार तथा अनमोव

जारूप। जानकारी कम्पनी की वेबसाई बीडीआर बिल्डकॉन लिमिटेड के लिए गाजियाबाद, गाजियाबाद 201001.

मुंबई सेंट्रल क्षेत्र में स्थित सिटी सेंटर मॉल में गुरुवार रात आढ बजकर 50 मिनट पर आग लगी, दमकल की कुल 50 गाड़ियां आग पर काबू पाने के काम में जुटी, वहीं 250 से ज्यादा अधिकारी और दमकल कर्मी भी तैनात

पर आग लग गई। वही आग पर काबू पाने की कोशिश में दो अग्निशमन कर्मी भी घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि इस मॉल में एक भूमिगत तल के साथ तीन मंजिल हैं और यहां से करीब 300 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।

बहन्मंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि दमकल के 24 इंजन और 16 बड़े टैंकर समेत दमकल की कुल 50 गाड़ियां आग पर काबू पाने के काम में जुटी हुई हैं। इसके अलावा 250 सं ज्यादा अधिकारी और दमकल कर्मी भी तैनात हैं। वहीं आग बुझाने की कोशिश के दौरान एक दमकल कर्मी का दाहिना हाथ मामूली रूप से जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे निकटतम जे जे अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत स्थिर है।

आग मॉल की दूसरी मंजिल पर स्थित एक मोबाइल की दुकान में लगी थी। इस मंजिल पर ज्यादातर दकानें मोबाइल और उससे जुड़ी उ सामग्रियों की ही हैं। बीएमसी बताया कि मॉल के पड़ोस में स्थित 55 मंजिला ओचिंड एन्क्लेव के 3 500 लोगों को एहतियात के तौर पर बाहर निकाला गया है। एक

मॉल में आग लगी, तो वहां से 300 लोगों को बाहर निकाला गया।

इस आग को शुरुआत में 'स्तर-एक' यानी 'मामूली श्रेणी' में रखा गया था. लेकिन इसे रात 10 बजकर 45 मिनट पर 'स्तर-तीन तक बढ़ा दिया गया तथा बाद में यह और भयानक होकर देर रात दो बजकर 30 मिनट पर 'स्तर-चार तक पहुंच गई। मुंबई की महापौर किशोरी पेड़नेकर ने घटनास्थल का आग अभियान की समीक्षा की ।

अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि अब तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इससे पहले गुरुवार को मुंबई के कुर्ला में कपड़ा फैक्टरी में आग लग गई थी। इस पर दो घंटे में काबू पा लिया गया था।

#### परीक्षा फिन-इन्वेस्ट-लीज लिमिटेड

[कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) : L65100DL1994PLC057377 | पंजी. कार्यालय : 7-सी, प्रथम तल, 'जे' ब्लॉक शॉपिंग सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

	-			(रू. लाख में)
	तिमाही	समाप्त	अध्दं वर्ष	समाप्त
विवरण	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	
प्रचालनों से कुल आय	9.06	17.10	18.32	27.95
अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों से पूर्व#)	4.04	2.65	3.10	1.90
अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर से पूर्व (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात#)	4.04	2.65	3.10	1.90
अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण नदों के पश्चात#)	4.81	2.30	-3.24	1.88
अवधि हेतु कुल समायेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाग/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं]	4.81	2.30	-3.24	1.88
इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 10/- प्रत्येक)	375.05	375.05	375.05	375.05
संचेय (पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर जैसा कि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है)		(31.03.2	2020 को) 1.00	
प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/– प्रत्येक)				
मूल :	0.13	0.06	-0.09	0.05
तनुकृत :	0.13	0.06	-0.09	0.05

जपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किए गए दूसरी समाप्त तिमाही/अर्ध्य वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण हैं। दूसरी समाप्त तिमाही/अर्ध्य वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) ानी की वेबसाइट (<u>www.pfil.in</u>) पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश द्वारा वास्ते परीक्षा फिन-इन्वेस्ट-लीज लिमिटेड हस्ता./– हरनन्द त्यागी निदेशक

60

दिल्ली जल बोर्ड

कार्यालय निदेशक (राजस्व) वरुणालय फेज-II, करोल बाग, नई दिल्ली-05 ''कोरोनो रोकिए, मास्क पहनिये, शारीरिक दूरी बनाये रखिए, हाथ साफ रखिए"

एनआईटी/आरएफपी सं. 02/डीजेबी/आरईवी.( एचक्यू )/2020-21/दिनांक 23.10.2020 दिल्ली जल बोर्ड, निदेशक (राजस्व) की ओर से निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए दिल्ली जल बोर्ड के न्यायक्षेत्र के तहत ऑनलाइन स्पॉट रीडिंग, वाटर मीटर की इमेज लेने, बिल की बिलिंग एवं वितरण तथा पानी/सीवर कनेक्शन की अन्य गतिविधियों के लिए एजेंसियों के चयन हेतु ऑनलाइन निविदाएं आमन्त्रित की जाती है

<b>京</b> . 花	जीन का नाम	निविदा शुल्क	धरोहर राशि	ई-प्रापण पटिल पर निविदा निर्गमन की तिथि		इं-प्रापण पोटेल माध्यम से इं-निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि/समय
1	सुभाष नगर (डब्ल्यूजेड1)	रु. 1500/ सभी 12 क्षेत्रों हेतु	रु. 307100/−	23.10.2020	2 वर्ष	23.11.2020 को 1:00 बने अप. तक निविदा आईडी : 2020_डीनेबी_195978_1
2	केवल पार्क (एनडब्ल्यू4)		रु. 413400/−	23.10.2020	2 वर्ष	23.11.2020 को 1:00 बने अप. तक निवंदा आईडी : 2020_डीनेबी_195978_2
3	वमुना विहार (एनई2)		क. 413000/-	23.10.2020	2 वर्ष	23.11.2020 को 1:00 बने अप. तक निवंदा आईडी : 2020_डीनेबी_195978_3
4	द्वारका		ফ. 118000/-	23.10.2020	2 वर्ष	23.11.2020 को 1:00 बजे अप. तक निविदा आईडी : 2020 डीजेबी_195978_4
5	गिरि नगर ( एसजेड2 )		रु. 177 100/−	23.10.2020	2 वर्ष	23.11.2020 को 1:00 बजे अप. तक निविदा आईडी : 2020_डीजेबी_195978_5
6	वसन्त कुंज (एसडब्ल्यू2)		₹. 236200/-	23.10.2020	2 वर्ष	23.11.2020 को 1:00 बजे अप. तक निविदा आईडी : 2020_डीजेबी_195978_6
7	सरिता विहार (एसजेड4)	ĺ	ফ. 236000/−	23.10.2020	2 वर्ष	23.11.2020 को 1:00 बजे अप. तक निविदा आईडी : 2020 डीनेबी 195978_7
8	प्रीत विहार (ईजेड1)		₹. 366200/-	23.10.2020	2 वर्ष	23.11.2020 को 1:00 बने अप. तक निविदा आईडी : 2020 डीनेबी_195978_8
9	मंडावली जोन (इंजेड1)		रु. 259700/-	23.10.2020	2 वर्ष	23.11.2020 को 1:00 बजे अप. तक निवदा आईडी : 2020 डीजेबी_195978_9
10	रोहिणी ( एनडब्ल्यू-II )		₹. 554900/-	23.10.2020	2 वर्ष	23.11.2020 को 1:00 बजे अप. तक निविदा आईडी : 2020_डीजेबी_195978_10
11	जनकपुरी (डब्ल्यूजेड1)		₹. 519600/-	23.10.2020	2 वर्ष	23.11.2020 को 1:00 बजे अप. तक निविदा आईडी : 2020_डीजेवी_195978_11
12	तिबिया कॉलेज (सीजेड)-II		ফ. 330700/-	23.10.2020	2 वर्ष	23.11.2020 को 1:00 बजे अप. तक निविदा आईडी : 2020_डीजेबी_195978_12

आरएफपी दिल्ली सरकार की ई-प्रापण वेबसाइट (http://govtprocurement.delhi.gov.in) तथा दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट (www.delhijalboard.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। पी.आर.ओ (जल) द्वारा जारी

विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2020-21-203

उपनिदेशक राजस्व (एचक्यू)-I

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर (भाषा)।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हरियाणा की एक औद्योगिक इकाई की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा है कि स्वच्छ पर्यावरण किसी स्थान पर रहने वाले लोगों का अधिकार है, जिसे झुठलाया नहीं सकता। एनजीटी ने इकाई को वायु प्रदूषण फैलाने के

लिए जिम्मेदार मानते हुए राज्य के प्रदूषण नियंत्रण वििमटेड को दूसरी जगह जाने का समय मांगने

बोर्ड को इसे बंद करने का आदेश दिया था. जिसपर पुनर्विचार के लिए इकाई ने याचिका दायर की थी। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा कि विशेषज्ञ समिति ने पाया है कि स्वीकृत शर्तों और वायु गुणवत्ता के मापदंडों का उल्लंघन कर औद्योगिक इकाई का संचालन किया जा रहा है।

हालांकि याचिकाकर्ता एसएसएफ पॉलीमर्स

के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जाने की छूट मिल गई है।

एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि स्वच्छ पर्यावरण किसी रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों का अधिकार है, जिसे किसी भी तरह झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन रिहायशी इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी औद्योगिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती।

#### तेज रफ्तार ट्रक बागड़ियों के कर्नाटक में 17 नवंबर से खुलेंगे डिग्री, डिप्लोमा व इंजीनियरिंग कॉलेज डेरे में घुसा, तीन की मौत या दोनों ही विकल्पों का इस्तेमाल और घायलों को उपचार के लिए

एक तेज रफ्तार ट्रक के ऋषिकेश-देहरादून मार्ग पर घुमंतु जाति के बागड़ियों के डेरों में घुस जाने से उससे कुचलकर तीन युवकों की मौत हो गई जबकि एक बुरी तरह घायल हो गया। . होदसा बृहस्पतिवार देर रात करीब

10 बजे हुई। इस दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है ।

ऋषिकेश कोतवाली के प्रभारी नरीक्षक रितेश कुमार शाह ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची एम्स अस्पताल भेजा। बताया कि पुलिस ने ट्रक चालक व ट्रक को कब्जे में ले लिया है। उन्होंने बताया कि घटना में मौके

पर ही युवक विक्रम और करनैल की मृत्यु हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल 15 वर्षीय संजीत ने उपचार के दौरान दम तोड़ा। ऋषिकेश की मेयर अनीता

ममगाईं ने अस्पताल जाकर पीडित परिजनों को सांत्वना दी और पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री त्रिवंद्र सिंह रावत से अनुरोध कर आर्थिक सहायता प्रदान कराने के प्रयास करने का आश्वासन दिया।

बंगलुरु, 23 अक्तूबर (भाषा)।

कोविड-19 महामारी रोकथाम के मद्देनजर बंद चल रहे इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और डिग्री कॉलेजों को कर्नाटक सरकार ने 17 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा, 'मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 17 नवंबर से इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और डिग्री कॉलेजों को खोलने का निर्णय किया गया।' उन्होंने बैठक के बाद संवाददताओं से बात करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के पास विकल्प होगा कि वे ऑनलाइन कक्षा में हिस्सा लें या कक्षा में व्यक्तिगत तौर पर आएं

करें। उन्होंने बताया कि सारी चीजें सुरक्षा मानदंड के अनुसार होगी। नारायण उच्च शिक्षा विभाग के

प्रभारी भी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति/जनजाति, सामाजिक कल्याण और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में रहते हैं, उनके लिए सरक्षा के सभी कदम उठाए जाएंगे और कक्षाओं के सचारु संचालन के लिए यातायात व्यस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में हुई बैठक में नारायण के साथ रवास्थ्य. सामाजिक कल्याण. पिछडा वर्ग, वित्त, परिवहन और शिक्षा विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

YES BANK

अधल सम्यान को लिक्स के लिए बक्री सूचना (प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित नियम 9 के अंतर्गत) संदर्भ

(प्रितिस्ति हित (प्रवर्तन) नित्मावाली, 2002 के निवस 8 के साब परित निवस 9 के अंतर्गत) संदर्भ सं अक्षि./DELE.NFORCEMENT/NN/2020-21/1400
प्रतिस्ति नित (प्रवर्तन) नियसवाली, 2002 के नित्म 8(6) के प्रायक्तानी के साब परित वित्तीय परित्मानालयों के प्रतिप्तिक्तरण एवं पूर्वनियंश
पात्रिपत्ती हित (प्रवर्तन) नियसवाली, 2002 के इंतर्गत करका परित्मानियों की विक्री के लिए है-नीताली किसी पूर्वना परिद्वारा अवा कनका
तथा पिरोण रूप से प्रतासित है जित्तका प्रतिन्द्व के डीटर के प्रार्थिकत अधिकारी द्वारा करका किया नार्य है, की में, दौलत वन इतिय सल् इत्याद उसके प्रतिप्तित ('श्राक्य प्रायक्त') की अस्तित मुक्त विक्रा तथा है। इति का प्रतिन प्रतिस्ति प्रतिस्ति के उत्याद प्रतिस्ति प्रतिस्ति के उत्याद प्रतिस्ति प्रतिस्ति प्रतिस्ति के उत्याद प्रतिस्ति प्रतिस्ति के उत्याद प्रतिस्ति प्रतिस्ति प्रतिस्ति के प्रतिस्ति प जाएगी। सम्मत्तियों के विवरण, आरक्षित मूल्य (जिससे कम में सम्मत्ति की विक्री नहीं की जाएगी) तथा धरोहर राशि भुगतान का विवरण नीचे तालिक

इं-नीलामी द्वारा अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिये नियम एवं शर्ते:

क्रम सं	दस्तावेजो के अनुसार गिरवी सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मृल्य	इंएमडी
L	ग्राम हिट्मतपुर, गुइर्गीय (वर्तमान म्यूनिसिशत पता 27/8, सामने गुप्ता हॉरसीटल जैकवपुश	र. 18200007- (रुपए एक	र. 18200007- (रुषए अटारा
	गुइर्गीय, हरियाणा-122001 में रिश्रत सम्पत्ति खसरा ने. 1864/1849/38, माप 170 घर्ग बाईस	करोइ थवासी लाख मात्र)	लाख बीस हजार मात्र)

समिति का निरीक्षणः इन्कुक पार्टी ०० एवं 10 नवस्यर, २०२० को 10.30 पूर्वा. से 5.30 सार्व के श्रीच सम्मत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। ईएमर्की जम करने की अर्तिय विकि: 13 नवस्यर, २०२० के 5.00 वजे सार्व तक

• नीलमी विक्री यार्डविएक के स्वीकृत सेवा प्रदाता में, ई-प्रविक्तीम-टेक्नोलांकी तिमिट्ट विसका कार्यालय वी २०४-७०5, चाल स्ट्रीट-11, ऑफ्टर क्वमक के सार्य, नुजारत कार्वेल के तिकर, एतिस क्रिंग, अस्तरावादर-20000, नुजात में हैं, सोगेर्ट के लिये समक्ष 93/4519754, समर्क व्यक्ति राम प्रसाद, मोबाईल नं. 08000023297 9978434773/ 9265562818, 21, तींट लाइन नं. 0.79 68156855 तथा साथ ही हिल्ल लाइन मैन आईसी delhi@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net के हैं, के हाय वेश पेटेल https://sarfaesi.auctiontiger.net/ साथ ही Auction Tiger Mobile App के मान्यम से "अर्तन लाइन ई-नीलमां बोली" हारा को जायेगी।

योती'' द्वारा को जायेगी। निवस्तर, 2020 को 11.00 वर्ष पूर्ण से 2.00 बने अप. तक समान्ति को नियत समय से पूर्व अंतिम 5 मिनटों में रहीं में बंदों के मामले में 5 (पाँच) मिनट के रवतः विस्तार के साथ होंगा। जमा की मूर्व बंदों को मामले में 5 (पाँच) मिनट के रवतः विस्तार के साथ होंगा। जमा की मूर्व बंदों को अध्यक्त अधिकारी ("एको") द्वारा निर्धारत आरक्षित मून्य से कपर होंगी तथा बोलीदाता क. 50,000' - रूपये पाया हजार मात्र) के गुणक में प्रस्ताध में मुखार कर सकते हैं। समान्ति की किसी एको हारा निर्धार्थित आरक्षित मून्य से कम में नहीं की जायेगी। अरक्षित मून्य से नीचे कोट की गई बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा जमा की गई प्रमार्थ के प्रकार को सामान्ति के अप में स्वार्थ के प्रकार के स्वार्थ के प्रमार्थ को स्वर्थ के प्रमार्थ के प्रमार्थ के प्रमार्थ के प्रमार्थ के प्रमार्थ के प्रमार्थ के में मात्र प्रमार्थ के प्रमार्थ करने करने प्रमार्थ के प्रमार्थ के प्रमार्थ करने करने प्रमार्थ के प्

जब कर तथा।

वीलीवत को सताह दी जाती है कि बोली जमा करने तथा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व बोली प्रयत्न तथा विक्रों के विस्तृत नियमों एवं कर्तों
कोलीवत को सताह दी जाती है कि बोली जमा करने तथा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व बोली प्रविधित प्रयाद विक्रा के साथ के करन निर्माल प्रक्रिया में भाग लाइन जमा को जायेगी। किसी अन्य तरिक से जमा की

गई बोली अपूर्व बोली को सिरत कर दिया जायेगा।

सभी बोलियों के स्वय अभीतिविद्धत के बाईसी दलायेजी जैसे हो पैन कार्ड हो) आधार कार्ड/ पास्पोट, हों।) वर्तमान पर्भ का प्रमाण हुए वैश्व अर्थ के स्वय अभीतिविद्धत के बाईसी दलायेजी जैसे हो को प्रवाद लायेजी की स्वेत को गई प्रतिया दरपोका इनेल आईदी पर्भ स्वाद की अपूर्व के साथ की कार्य का अपूर्व प्रमाण हुए की स्वयत्व के स्वयत्व की स्वयत्व स्वयत्व की स्

विदरण	विदारण
बैंक एवं शाखा का नाम	यस बैंक लिमि. बीबी सीएडी दिल्ली इन्टरनल एकाउन्ट चाणक्यपुरी, दिल्ली
लाभभोगी का नाम	यस बैंक लिमि. बीबी सीएडी दिल्ली इन्टरनल एकाउन्ट
खाता सं.	000389900000074
आईएफएससी कोड	YESB0000003, चाणक्यपुरी, दिल्ली

इच्छुक चोलीदाता को बैंक को त्योकार्य होने चाले प्रारूप में बैंक के पास इंप्यादी के पुगतान का प्रमाण जगा करना होगा। खोली के पास पैच ई-मेल आईडी होना चाहिये क्वोंक प्रतिभृत क्रेडीटर/सेवाप्रदाता से सभी संबंधित जानकारी केवल इंमेल हारा भेजी

जारना सम्भावित इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी में भागीदारी पर ऑनलाइन/व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये ऊपर वर्णित विवरणों के अनुसा

करणाम्या ३ प्युक्त बासाताता इ-नालामा में भागीतारी पर ऑनलाइन/व्यक्तिगत प्रतिक्षण प्राप्त करने के लिये ऊपर पर्णित विद्यरणों के अनुसार प्राप्तिक अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। फिर भी, प्राप्तिकृत अधिकारी अथया प्रतिभूत क्रेडीटर अथ्या सेया प्रदात किसी भी तकत्त्रको चूकों/पायर फैल्पोर आदि के लिये उजदरायें नहीं होंपे।

ल्प क्ल बोलीदाता की ईएमडी ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर वापस लौटा दी जायेगी यह बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। यदि ऋणधारक/गारन्टर ई-नीलामी की नियत तिथि एवं समय से पूर्व प्रतिभूत क्रेडीटर के पास

यह फिकों कि हात पृष्टि के अभीन होती। यदि ऋषधायह-पारटर ई-नीलामी को नियत विधि एयं सामय से पूर्व प्रतिभूत केडीटर के पास सम्मूर्ण कर्काया रित्त का चुरातान कर दें हैं ते कोई फिकों नहीं की जायेगी। और की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में उपरोक्त सम्मति पर कोई अधिभार नहीं है। लेकिन, संभावित निर्मयकर्ता को सलाह दो जाती है कि अपने स्वयं का उद्मू वितिनेत्त्र कर ले तथा दाइटलाअभिभारी आदि के लिये अपनी स्वयंक्त जांच कर लें। उपरोक्त निरयों सम्मति के संदर्भ में किसों चालित हैं। तथा, अभिभार सम्मति कर अकाया सकता तथा किसी मी तिकाय के किसी अपना कवाये के तियं धा उत्तरहात्री नहीं हों। सम्मति की विकां गित्रेश्व केडीटर को जाता अक्ष्या अज्ञात शिवामन तथा भविष्य के सभी अभिभारों के साथ को जा रही है। एओं की बिना कोई कारण क्यांचे किसी भी निविद्यानिविदाओं (किसी भी सम्मति के लिये) को निरस्त करने अक्या यहांत तक कि इं-नीलामी को रह करने का अधिकार है।

वैट. टीडीएस आदि से संबंधित सभी खर्चे का वहन केता को ही करना होगा।

चंद्र, टाइएएस आहि स समापत सभी खर्च का वहन केता को ही करना होगा।

■ सम्मित्रकों के निरोक्षण सहित नीलामी पर आगे किसी भी जानकारों के लिये इस्कुळ निविद्यकार प्रापिक्त अधिकारी (एओ) चेहिन निझयन

+919350741339 से सभी कार्य दिवसों को 10.30 पूर्वा. में 530 अप. के बीच सम्मर्क कर सकते हैं।

ऋष्यस्तर प्राप्तर स्त्रे के निरोक्षण सहित नीलामी पर आगे किसी भी 35 अप. के बीच सम्मर्क कर सकते हैं।

ऋष्यस्त्र प्राप्तर से निर्देष सूचना

प्रयोगत को उसका पुगतन इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर करने के लिये देशवरों के लिये सूचना मानी जाये।

तिथिः 23 अक्टूबर, 2020 स्थानः नई दिल्ली

हस्ता./- (प्राधिकत अधिकारी) यस बैंक लिमिटेड



परिशिष्ट - IV- ए (नियम 8 (6) का परंतुक देखें) अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

व विशेष रूप से कर्जवार तथा गारंटर को सुचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास काक रखी गई/प्रमासित निम्नवर्णित सम्प्रति, जिसका प्रतसित /भीतिक (वो भी लागू है)' कब्जा प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वार हात प्राप्त किया जा चुका है, प्रतिभूत क्रेडिटर की निम्मतिचित कर्जवारों की तरफ ककाया राशि तथा ब्याज तथा लागती इत्यादि सहित की वसूली के लिए, दिनांक 27-11-2020 को "पैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है धार पर वेथी जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट नामतः। www.canarabank.in में उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

第円 편o.	उधारकर्ता/जमानती का नाम	देय राशि	सम्पत्ति का विवरण	आरवित मूल्य	ईएमडी	शाखा का नाम/पता
		हजार नौ सौ पांच और तिरासी पैसे मात्र) दिनांक 01.10.2020 तक बकाया + आगे	भूमि और रंगस्तरा आवारीय महान भूतीपित थे. ८.६६. रिस्पकी मात्र 4.८६ स्लेश्वर वार्ड, गांव केंद्रा, गीठ प्रेम नगर 111, गाजियाबार, गातिक भी राहत हुरीन पुत्र सीतत हुरीन गोहरदी: पूर्ट 20 फिट पीड़ा रास्ता, साञ्चन केंद्रीय कें बार, परिषण- भूति के अन्य माजिक, पतार आहिद की भूमि, प्रोप्ता अकरन की भूति।	रूपये 22,80,000 (बाईस लाख अस्सी हजार मात्र)	रूपये 2,28,000 (दो लाख अटठाईस हजार मात्र)	शाखा ठीपीएस, मेरठ रोड़, गाजियाबाद फोन्- 0120-2828365
2.	गाजियाबाद 201001.	हजार पांच सी यन्द्रह और पंचास पैसे	पूकना, परगना लोगी, तहसील और जिला गाजियाबाद, मालिक श्रीमति शकुत्तला परिन श्री नरेश कुमार चीहददी: पूर्व भगवती का प्लॉट, पश्चिम के के गुप्ता का प्लॉट, उत्तर 12 फिट चौड़ा	रूपये 13,50,000 (तेरह लाख पंचास हजार मात्र)	रूपये 1,35,000 (एक लाख पैतिस हजार मात्र)	शाखा डीपीएस, मेरठ रोड़, गाजियाबाद फोन.—

#### गुवाहाटी हाई कोर्ट के तीन अतिस्कित न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश नई दिल्ली, 23 अक्तूबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजियम ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजरी दे दीँ है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले कॉलिजियम ने 12 अक्तूबर को अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस संजय कुमार मेधी और न्यायमूर्ति नानी तागिया को गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। करने के प्रस्ताव को मंजूरी इसके बाद, कॉलिजियम ने 15 अक्तूबर को अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमर्ति मनीष चौधरी को स्थायी ऱ्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजरी दी।

हाई कोर्ट की वेबसाइट पर यह जानकारी उपलब्ध करायी गई। यायमूर्ति मेधी और न्यायमूर्ति तागियाँ 19 नवंबर, 2018 की गुवाहाटी हाई कोर्ट के अतिरिक्त ऱ्यायाधीश नियक्त किए गए थे जबिक न्यायमूर्ति चौधरी को 18 जनवरी, 2019 को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाले कॉलिजियम के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एनवी रमणा, न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर

#### बदायुं में डकैतों ने परिवार को बंधक बना कर लुटा

बदायूं (उप्र), 23 अक्तूबर (भाषा)।

बदायूं जिले के उझानी कोतवाली क्षेत्र में डकैतों ने गुरुवार रात एक घर में परिवार के को बंधक बनाकर हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उझानी कोतवाली इलाके के जजपुरा गांव में रतन सिंह का परिवार घर में सोया हुआ था। तभी गरुवार रात आधा दर्जन डकैतों ने , यर पर धावा बोल दिया और रतन सिंह के माता-पिता को बंधक बना लिया।

ग्रोवी इंडिया लिमिटेड

प्राची इंडिया लिमिटेड कर्म, कार्यका 22.1 कर महिलामेड्डार्म, स्थान महारा 11. मई हिल्ती-11024 (Pr. 10.1-14-14000) (Chi. 1.7-14-14000) (Chi. 1.7-14-14000) (Chi. 1.7-14-14000) (Chi. 1.7-14-14000) (Chi. 1.7-14-14000) (Chi. 1.7-14000) (Chi. 1.7-1400